

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 216]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 13 जुलाई 2023-आषाढ़ 22, शक 1945

### किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2023

क्र.-AGR-13-13-0001-2023-Sec-2-चौदह-CN-222652.-भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-02-2015-क्रेडिट-II, दिनांक 26 अप्रैल 2021 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2023 में पटवारी हल्का, तहसील एवं जिला स्तर पर बीमित की जाने वाली फसलों की अधिसूचना असाधारण राजपत्र क्रमांक 174, दिनांक 01 जून 2023 एवं क्रमांक 193, दिनांक 19 जून 2023 को जारी की गई है. जारी अधिसूचना के अनुक्रम में, संलग्न सूची अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 के लिए चयनित क्लस्टरवार, जिलावार क्रियान्वयन एजेन्सी (बीमा कम्पनी) निर्धारित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ 2023 से रबी 2025-26 में क्रियान्वयन हेतु चयनित क्रियान्वयन संस्था की सूची

क्लस्टर क्र. (1)	जिले का नाम (2)	क्रियान्वयन संस्था (3)
1.	उज्जैन	इफको टॉकियो जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
2.	मंदसौर, नीमच, रतलाम	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
3.	देवास, इंदौर	एस.बी.आई. जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
4.	आगर मालवा, शाजापुर	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
5.	भोपाल, सीहोर	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
6.	रायसेन, विदिशा	एस. बी.आई. जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
7.	अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगौन.	एच.डी.एफ.सी. एगो जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

(1)	(2)	(3)
8.	अशोकनगर, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर मुरैना, राजगढ़, श्योपुर, शिवपुरी.	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
9.	अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, उमरिया.	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
10.	बैतूल, हरदा, होशंगाबाद	एस. बी.आई. जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
11.	छतरपुर, दमोह, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़.	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड